



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1933 (श0)
(सं0 पटना 61) पटना, बुधवार, 22 फरवरी 2012

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

8 फरवरी 2012

सं0 पर्य0/यो0(रा0)-62/11-327/प0व0—दिनांक 20.01.2012 को माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में मंगल तालाब के रख-रखाव से संबंधित गठित समिति की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में नव निर्मित पर्यटकीय संरचनाओं के प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए पुनर्गठित की जाती है:-

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. माननीय स्थानीय विधायक | — | पदेन सदस्य। |
| 2. अपर जिला दण्डाधिकारी, सामान्य | — | पदेन अध्यक्ष। |
| 3. अनुमण्डल पदाधिकारी | — | सदस्य सचिव। |
| 4. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी | — | सदस्य। |
| 5. नगर निकाय के पदाधिकारी /प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | — | सदस्य। |
| 6. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण | — | सदस्य। |
| 7. कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण | — | सदस्य। |
| 8. कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत | — | सदस्य। |
| 9. माननीय मंत्री, पर्यटन द्वारा नामित तीन व्यक्ति | — | सदस्य। |
| 10. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक व्यक्ति | — | सदस्य। |
| 11. प्रभारी पदाधिकारी, अनुमण्डल नियन्त्रण कक्ष | — | सदस्य। |
| 12. बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के मंदिर/मठ के महन्त | — | पदेन सदस्य। |
2. समिति के दायित्व एवं कर्तव्य:-
- (क) पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित संरचनाओं का किराया निर्धारण करना एवं समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना।
- (ख) इसके उपयोग हेतु मार्ग-निर्देश तैयार करना।
- (ग) इसके विकास हेतु योजना तैयार करना।
- (घ) समिति की बैठक में भाग लेने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

3. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के दायित्व एवं कर्तव्य:-

(क) निर्मित संरचनाओं से प्राप्त राशि को जमा करने हेतु संयुक्त खाता खोलना तथा उसका कैश-बुक संचालन। संयुक्त खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के नाम होगा।

(ख) सदस्य सचिव अध्यक्ष की अनुमति से नव निर्मित संरचनाओं का आरक्षण करेंगे। आरक्षण की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित व्यक्ति अनुमण्डल नजारत में राशि जमा करेंगे। राशि जमा करने के उपरान्त उनका आरक्षण का आदेश प्राप्त होगा।

(ग) सदस्य सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से प्रत्येक वर्ष कम-से-कम तीन बैठक का आयोजन करेंगे।

(घ) इसके रख-रखाव में दिन-प्रतिदिन के कार्य हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति से व्यय किया जा सकेगा।

(ङ.) अध्यक्ष की अनुमति से भवन की देख-रेख हेतु नाईट गार्ड, माली, सफाई कर्मी एवं केयर टेकर दैनिक पारिश्रमिक पर रखे जा सकेंगे।

(च) अनुमण्डल नाजिर इसका अलग से एक कैश-बुक का संचालन करेंगे जिसमें इससे प्राप्त होने वाली आय-व्यय की प्रविष्टि की जायेगी। सदस्य सचिव कैश-बुक को प्रतिदिन जाँच कर सत्यापित करेंगे।

(छ) प्रत्येक वर्ष संबंधित कैश-बुक का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा ऑडिट किया जायेगा।

(ज) गठित समिति अपने स्तर से विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत का कनेक्शन लेगी तथा विपत्र आदि का भुगतान निर्मित परिसम्पत्तियों के प्राप्त आय से करेगी।

(झ) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा संचालित मंदिर/मठ की वैसी जमीन जिसपर पर्यटन विभाग द्वारा परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया गया है, सिर्फ उन्ही स्थलों पर संबंधित मंदिर/मठ के महन्त को रख-रखाव से संबंधित गठित समिति के पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

(त) पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2105, दिनांक 10.11.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 61-571+50-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>